

बिहारशरीफ में बिक रहा ब्रांडेड कंपनी का नकली पंखा, हिरासत में तीन दुकानदार

Hindi News/State/Bihar/Nalanda

प्रणय राज, नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के बिहारशरीफ में लहेरी थाना क्षेत्र के एमजी रोड स्थित तीन इलेक्ट्रॉनिक दुकान में तूफान पंखा कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पंखा को बरामद किया है। छापेमारी से इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया।

अनुसंधान ग्लोबल कंपनी के आईपीआर एग्जीक्यूटिव अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि बिहारशरीफ की कई इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में कोलकाता की तूफान कंपनी का नकली पंखा बेचा जा रहा है। इसी सूचना पर एमजी रोड स्थित मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सेंटर और बब्लू इलेक्ट्रॉनिक्स में छापेमारी की गई। जहां से करीब 40 नकली पंखा को बरामद किया गया है। मौके से संचालक मेघा प्रसाद, मो असलम आजाद और बब्लू कुमार को हिरासत में लेकर थाना लाया गया है।

इसके पूर्व भी बिहारशरीफ में ब्रांडेड कंपनी के नकली चप्पल, जींस शर्ट व कई तरह के उत्पाद पकड़े गए हैं।

थानाध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों की ओर से मिली सूचना पर तीन दुकानों में कार्रवाई की गई है। छापेमारी में दारोगा मिथलेश कुमार पंडित, जमादार वीरेन्द्र मुखिया व पुलिस के जवान शामिल थे।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/bihar/nalanda/fake-fan-of-branded-company-being-sold-in-bihar-sharif-nalanda-three-shopkeepers-in-custody/videoshow/91602408.cms>